



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 पौष 1936 (श०)
(सं० पटना 116) पटना, शुक्रवार, 9 जनवरी 2015

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

आदेश
1 दिसम्बर 2014

सं० 07/नि.(विधि-06) के.सह.अधि.-03/2009-6624—चूंकि, इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 4826 दिनांक 13.09.2013 द्वारा परिसमापनाधीन मधेपुरा-सुपौल केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., मधेपुरा के परिसमापन कार्यों के त्वरित निष्पादनार्थ श्री उपेन्द्र कुमार, जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा-सुपौल केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., मधेपुरा का परिसमापक नियुक्त किया गया था। परन्तु इनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है, इसलिए परिसमापनाधीन उक्त प्रासंगिक बैंक में परिसमापक की नियुक्ति किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, हुकुम सिंह मीना, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा-44(2) एवं तदनुसार बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम 64(2) के अन्तर्गत, श्री गोपाल मीना, जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को परिसमापनाधीन मधेपुरा-सुपौल केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., मधेपुरा का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

आदेश से,
हुकुम सिंह मीना,
निबंधक, सहयोग समितियाँ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 116-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>